

TRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITED

(Formerly known as IO System Limited) CIN: L74110UP1987PLC008764

REGI. OFFICE: OFFICE NO. 1109, CORPORATE PARK TOWER, A/1, PLOT NO.7A/1, SECTOR 142, NOIDA, NOIDA Gautam Buddha Nagar UP 201301 IN

Corp. off.: B-1101, Titanium Square, B/H. Sarveshwar Tower, OPP. B.M.W. SHOW ROOM, THALTEJ AHMEDABAD 380054 GJ
IN

Email: compliance@tihil.co.in; Tel +91-79-46008108, Website: www.tihil.co.in

08-09-2023

To,
The Department of Corporate Service (DCS-CRD)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Ref: TRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITED SECURITY CODE NO.: 523752

SUB.: Post -Dispatch Notice of Annual General Meeting to be held on 30th Day of September, 2023 for F.Y.

<u>2022-23</u>

Ref: Filing of Clipping of Newspaper Announcement regarding Post- Dispatch Notice of AGM to be held on 30-09-2023

Dear Sir,

Pursuant to regulation 30 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, we hereby inform that, we have uploaded Notice of Annual General Meeting in pdf as well as XBRL Format to be held on $30^{\rm th}$ Day of September, 2023 at 2.00 p.m. along with Annual report Link on BSE portal on $05^{\rm th}$ Day of September, 2023.

Further, we have enclosed herewith the Copies of Newspaper Publications in respect to Post-Dispatch Notice of Annual General Meeting to be held on 30th Day of September, 2023 for F.Y. 2022-23.

- 1) Financial Express (English) dated 08th Day of September, 2023
- 2) Jansatta (Hindi) dated 08th Day of September, 2023

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

For Trans India House Impex Limited (Formerly known as IO System Limited)

MRUGESH ASHWIN Digitally signed by MRUGESH ASHWIN KUMAR VYAS Date: 2023.09.08 12:01:14 +05'30'

Mrugesh Ashwin Kumar Vyas Company Secretary and Compliance Officer PAN - AIXPV8495M and Membership No: ACS: 49190 **FINANCIAL EXPRESS**

AUTO OLINE **AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L34300PN1996PLC104510

Reg. Office: Survey Nos. 313,314, 320 to 323, Nanekarwadi, Chakan, Tal: Khed, Dist. Pune 410 501 | Tel No. +91-2135 635865/6

Website: www.autolineind.com | Email: investorservices@autolineind.com

NOTICE

Notice calling 27th Annual General Meeting of the members of the company along with Annual Report for FY 2022-23 were circulated on September 2, 2023. The Company have revised the said Notice and Annual Report for FY 2022-23 for a few typographical & clerical errors and resent on September 6, 2023 to all the Shareholders whose records are registered with the Company. The Revised Annual report is also posted on the website of the Company i.e. www.autolineind.com and on the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Stakeholders are kindly requested to please take note of the same.

Place : Pune

For Autoline Industries Limited

Shilpa Walunj

Company Secretary Membership No. A38259

Dated: 7" September 2023

FONE4 COMMUNICATIONS (INDIA) LIMITED CIN: U51506KL2014PLC036625 Registered Office address: Poovathum Arcade, Koothapady Temple Road,

Thammanam, P.O. Ernakulam 682032, Kerala India Website: www.fone4.in E-mail ID: cs@fone4.in NOTICE OF 09th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of Fone4 Communications (India) Limited will be held on Thursday, 28th day of September, 2023 at 01:00 P.M. IST through Video-Conferencing/Other Audiovisual means(VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financia
- year ended March 31, 2023 of the Company has been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e. 01st September, 2023. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Repor will also be available and can be downloaded from the website of the Compan-The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by
- Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 25th September, 2023 (09:00 A.M.) and end on 27th September, 2023 (05:00 P.M.) During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 201 September, 2023, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-ma addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2022-23 along with AGM Notice by email to cs@fone4.in. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting
- The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 22rd September, 2023 to Thursday, 28th September, 2023 (both days inclusive).
- The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

For Fone4 Communications (India) Limited

Place: Ernakulam Date: 06-09-2023

Sayyed Hamid Managing Director DIN: 05167876

INTERTEC TECHNOLOGIES LIMITED Regd Office: No.28, Shankar Mutt Road, Bangalore - 560 004 CIN NO. L85110KA1989PLC010456

NOTICE OF 34th AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 34thAnnual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday 29th September, 2023 at 11:00AM at No.28, Shankar Mutt Road, Bengaluru - 560004, to transact the business mentioned in detail in the Notice of AGM.

- 1. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (collectively referred to as 'Circulars"), electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 is dispatched to those whose email addresses are registered with the Company's Registrar Share transfer agent or CDSL or NSDL (depositaries). The Notice and Annual Report are also uploaded to the Company's website **www.intertec1.com**, and the website of the Stock Exchange –MSEI Limited at www.msei.in.
- 2. The Company has made arrangements with KFIN Technologies Ltd. for providing 'remote e-voting' facility. Mr. Sunil Desur, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for conducting the Remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- Members holding shares in physical or dematerialized form who have not registered or updated their email addresses, bank details with the Company are requested to register or update the same by writing to RTA of the Company, KFIN Technologies Ltd. Email id: evoting@kfin.com with details of Folio no. and attaching self-attested' copy of PAN card.
- The detailed procedure for eVoting is provided in the Notice of AGM. The remote e-voting period shall commence on 24th Sept, 2023 (9.00 a.m.) and ends on 28th Sept, 2023 (5.00 p.m.). During this period the Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date 22nd Sept, 2023 may cast their vote by remote e-voting. The Company will also be providing Voting through Ballot paper for casting vote at the AGM venue during the AGM for those eligible Members who have not cast their vote through eVoting.
- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday 23rd Sept 2023, to Saturday 30th Sep, 2023.

Date: 7th Sept 2023 For Intertec Technologies Limited Place: Bangalore Ravi Chandar TS, Managing Director



IMPEX FERRO TECH LIMITED Regd. Office: 35, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700 012 Phone No.: +91-33-2211 0225

Corporate Office: SKP House, 132A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026 Phone No.: +91-33-4016 8000/8100; Fax: +91-33-4016 8191/8107 Website: www.impexferrotech.com; E-mail: cs@impexferrotech.com CIN: L27101WB1995PLC071996

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company for financial year 2022-23 is scheduled to be held on Thursday, 28th September, 2023 at 3.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM (the Notice) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 along with all applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). Members are requested to go through the Notice of AGM carefully particularly instructions given therein for attending AGM and matters associated therewith.

In compliance with the above MCA and SEBI circulars, electronic copies of Notice of 28th AGM along with members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants for communication purpose. Notice of the 28th AGM along with Annual Report will also be available on the Company's website www.impexferrotech.com, website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. Members holdings shares in physical mode are requested to update their email id with RTA at mdpldc@yahoo.com or with the Company at cs@impexferrotech.com. Members holdings shares in dematerialised mode are requested to update their email id and mobile number with the concerned

The Company is pleased to provide to all its members holding shares as on the cut-off date i.e., Thursday, 21st September, 2023 with the facility to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) provided by CDSL to transact businesses as set out in the Notice of AGM. The detailed manner for participating through remote e-voting facility and e-voting during the AGM is given in the Notice. The remote e-voting period will commence on Monday, 25th September, 2023 at 9:00 a.m. and will end on Wednesday, 27th September, 2023 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Any person who become member after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., Thursday, 21st September, 2023 may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or RTA of the Company at mdpldc@yahoo.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting, then they can use the existing user id and password to cast their votes. The Company has opted to provide e-voting during the AGM which is integrated with the VC/OAVM platform, and no separate login id is required for the same. Members who had cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Those members attending the AGM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote

In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to FAQs and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact the Company or Registrar and Share Transfer Agent.

By Order of the Board For Impex Ferro Tech Limited

Place: Kolkata Date: 7th September, 2023

Richa Lath Company Secretary & Compliance Officer

SHARAT INDUSTRIES LIMITED CIN: L05005AP1990PLC011276

Regd Office: Venkannapalem Village, T.P.Gudur Mandal, Nellore District, AP Pin 524002 Mob: 88976 28787, Email: cs@sharatindustries.com, Website: www.sharatindustries.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sharat Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, 28th September 2023 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OVAM") at 11:00 AM in compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 5th May, 2020 ,13th January, 2021 05th May 2022 and 28th December 2022 read with the other previous circular issued in that connection herein collectively referred to as the ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/ CFD/ CMD1/CIR /P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), to transact the businesses as set out in the AGM notice.

In line with the MCA circulars and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility to exercise their vote by electronic means in respect of the resolution proposed to be transacted at the AGM. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the facility of remote E-Voting to the members and also the facility of E-Voting for the members participating in the AGM through VC/OAVM. The notice of the AGM and the Standalone and Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022-2023, along with Boards Report, Auditors Report and other documents has been sent by e-mail to members who have registered their e-mail address (either with the Company or with Depositories) and whose name appears in the Register of Members / in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as at the close of business hours on Friday, 01st September 2023. The aforesaid documents are also available on the website of the Company's www.sharatindustries.com and on the website of the Stock exchange www.bseindia.com.

Members may also access the Notice of the AGM and other related documents at https://www.evotingindia.com, the web-site of the CDSL, under shareholder/member login by using the remote E-Voting credentials. The process and manner of remote E-Voting, attending the AGM through VC/OAVM and E-Voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for members who have not registered their email has been provided in the notice of AGM.

Members holding shares in physical form who have not registered their email address / PAN and other details with the Company/Cameo Corporate Services Limited, Registrar and Share transfer agents (RTA) are requested to register the above details with the Company / RTA by sending duly filled in Form ISR - 1 available in the website of the Company along with the necessary enclosures to the Company/RTA.

We further inform that

- The Cut-Off date for determining the eligibility for remote E-Voting and Voting at AGM through E-Voting system is Thursday, 21st September 2023. A person whose name is recorded in the register of members / in the register of beneficial owners maintained by the depositories (in case of shares held in dematerialized form) as on the said cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-Voting as well as voting in the AGM through E-Voting system.
- II. Remote E-Voting shall commence at 09:00 AM (IST) on Monday, 25th September 2023 and end on 05:00 PM (IST) on Wednesday, 27th September 2023. E–Voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- III. The facility for E-Voting shall also be made available to the members participating in the AGM through VC/OAVM and the members, who have not cast their vote by remote E-Voting, shall be allowed to vote through E-Voting in the AGM.
- IV. A Member may participate in the AGM through VC/OAVM ever after exercising his/her right to vote through remote E-Voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
- V. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the user ID and password by sending a request to: helpdesk.evoting@cdslindia.com/cs@sharatindustries.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing User ID and Password can be used for casting their vote. A person who is not a member as on the Cut-Off date should treat this Notice of AGM for information purpose only.
- In case of any gueries / grievances connected with the remote E-Voting and the E-Voting in the AGM or if the members need any assistance before or during the AGM, the members may contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058738) at the designated email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com

For SHARAT INDUSTRIES LIMITED

M. BALAMURUGAN

Place: Nellore Date: 06th September 2023 **COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER** M.NO:A66115 **MAYURBHANJ TRADES & AGENCIES LIMITED** CIN: L24117WB1979PLC032322

REGISTERED OFFICE: 7, WATERLOO STREET, 2ND FLOOR, KOLKATA - 700069 PHONE: +91-33-2248 0602: E-MAIL: INFO.MAYURBHANJ@GMAIL.COM WEBSITE: WWW.MAYURBHANJTRADES.IN

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 29, 2023, at 12.30 p.m. at the Registered Office of the Company at 7, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700069, to transact the business as mentioned in the Notice of AGM sent along with the Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2023, and the Board's Report and Auditors Report thereon.

Electronic transmission and physical dispatch of the Annual Report, 2023, along with the AGM Notice, Attendance Slip and Proxy Form, have been completed on September 5, 2023. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), i.e. www.evotingindia.com. Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting') to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The company has engaged CDSL for providing e-voting facility. The details of remote e-voting are given below:

- The remote e-voting will commence on Tuesday, September 26, 2023 from 9.00 A.M. and ends on Thursday, September 28, 2023 at 5.00 P.M. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter, and no one shall be allowed to vote electronically after September 28,
- The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date i.e., September 22, 2023.
- Notice of AGM has been sent to all the members whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners as on August 25, 2023. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after August 25, 2023, and holding shares as on the cut-off date i.e., September 22, 2023, may obtain the Login ID and Password by sending a request at info.mayurbhanj@gmail.com, or call at Tel: +91-33-2248 0602.
- iv) Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently. (v) The facility of casting vote through ballot paper will be made available at the AGM and the
- eligible members attending the AGM shall be able to cast their vote at AGM through ballot paper. vi) The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any gueries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact Mr. Mehboob Lakhani, CDSL, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai - 400001, at email: helpdesk.evoting@cdslindia.com in Telephone No.: 022-22725040.

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive).

For Mayurbhanj Trades & Agencies Limited

(HARENDRA SINGH) Whole-time Director& CFO

Place: Kolkata Date: September 7, 2023 (DIN -06870959)

TRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITED (formerly known as IO System Limited)

CIN: L74110UP1987PLC008764 Regd. Office: Office No. 1109, Corporate Park Tower, A/1, Plot No. 7A/1, Sector 142, NOIDA Gautam Buddha Nagar, UP 201301 IN Corp. Office.: B-1101, Titanium Square, B/H. Sarveshwar Tower,

Opp. B.M.W. Showroom, Thaltei, Ahmedabad 380054 GJ IN Email: compliance@tihil.co.in; Tel: +91-79-46008108, Website: www.tihil.co.in Post-dispatch Intimation to Shareholders.

NOTICE of AGM

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the members of TRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITED (Formerly Known as IO SYSTEM LIMITED) will be held on Saturday, 30th Day of September, 2023 at 2:00 P.M. to transact the following business through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") **ORDINARY BUSINESS:**

2. Re-appointment of Mr. Mayank s. Jolly (Din: 09366175) as director of the company, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment. 3. To appoint statutory auditor M/S Manoj Acharya & Associates, Chartered Accountants

1. Adoption of the Annual Audited standalone financial statements and reports thereon.

- Ahmedabad, as statutory auditor of the company for the period of five years SPECIAL BUSINESS: 4. To increase Borrowing Limits of the Company as per Section 180(1) (c) of the
- Companies Act, 2013 5. Creation of securities on the properties of the Company under Section 180 (1) (a) of the
- 6. To increase the limits of Investments/ Loans and Guarantees under Section 186 of the
- Companies Act, 2013 7. To increase the limits of managerial remuneration under Section 197 of the
- Companies Act, 2013 a. To approve increase in remuneration of Mr. Mayank S. Jolly, Non-Executive Non Independent Director (DIN: 09366175) of the company
- b. To approve increase in remuneration of Mr. Irfan Qureshi. Non-Executive Non Independent Director (DIN: 09494589) of the company
- c. To approve increase in remuneration of Mr. Mitesh S. Rajput, Non-Executive Non Independent Director (DIN: 06772154) of the company
- To rectify the loans, guarantee or security made by the company to person in whom any of the director of the company is interested under section 185 (2) of companies
- Approval of existing as well as new related party transactions 10. To Appoint Statutory Auditor M/S Manoj Acharya & Associates, Chartered
- Accountants, Ahmedabad, as statutory auditor of the company to fill casual vacancy due to resignation Of M/S Gupta Garg & Associates

In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively "MCA Circulars") and SEBI circular dated May 12, 2020 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/11 dated January 15, 2021 and all other relevant circulars issued from time to time, physical attendance of the Members to the EGM/AGM venue is not required and general meeting be held through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM"). Hence, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and MCA Circulars, the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is being held through VC OAVM and members can attend and participate in the ensuing EGM/AGM through VC/OAVM. The deemed venue for the 35th AGM shall be at the Registered Office at OFFICE NO. 1109, CORPORATE PARK TOWER, A/1, PLOT NO.7A/1, SECTOR 142 NOIDA, Gautam Buddha Nagar UP 201301 IN.

Pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by "MCA", the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM However, the body corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting. Hence, the Proxy Form, Attendance Slip and Route Map of AGM are not annexed to this

The Company has enabled the Members to participate at the 35th AGM through the VC facility provided by Mas Services Limited, Registrar and Share Transfer Agents. The instructions for participation by Members are given in the subsequent paragraphs. Participation at the AGM through VC shall be allowed on a first-come-first-served basis. The facility for voting during the AGM will also be made available. Members present in the AGM through VC and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the

Members holding shares in physical form are requested to intimate immediately to the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited, ("RTA"), T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110 020 Ph:- 011-26387281/82/83 Fax:-011-26387384 quoting registered Folio No. (a) Details of their bank account/change in bank account, if any, and (b) change in their address, if any, with pin code number.

e-voting system during the AGM on September, 30th, 2023 at 2:00 P.M.

Corporate members intending to attend the AGM through authorized representatives are requested to send a scanned copy of duly certified copy of the board or governing body resolution authorizing the representatives to attend and vote at the AGM to email the said resolution to the Scrutinizer at hetidshah@gmail.com with a copy marked to company at compliance@tihil.co.in at least 48 hours before the meeting.

Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of

reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 (the "Act"). In line with the MCA Circulars, Members may also note that the Notice of the 35th AGM and the Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website.

www.tihil.co.in and website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. In case of any queries regarding the Annual Report, the Members may write to compliance@tihil.co.in to receive an email response. Pursuant to regulation 42 of SEBI (LODR) regulations, 2015, the register of members and

share transfer books of the Company will remain closed from Sunday, the September 24th, 2023 to Saturday, the September 30, 2023 (both days inclusive). Further, pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made there under and regulation 44 of SEBI(LODR) regulations, 2015, the Company has

fixed 23rd September, 2023 as cutoff date to record entitlement of the members to cast their

Sunday, the September 24th

Cutoff Date: 23rd September,

2023 to Saturday, the

September 30th, 2023

votes electronically for the business to be transacted at the 35th Annual General Meeting. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023 (09:00 am) and ends on Friday, September 29, 2023 (05:00 pm). The Details are as follows: Type of Security Book Closure Symbol Purpose

We have uploaded the notice along with Annual report link at BSE Portal on the day of September 05, 2023. Moreover, we have also given the pre dispatch intimation notice in the newspaper of Jan Satta and Financial express on the day of September 07, 2023. Furthermore, we have dispatched the AGM Notice to shareholders via email on the day of September 07, 2023.

For, Trans India House Impex Limited (Formerly known as IO System Limited)

Corporate Office:

B-1101, Titanium Square,

35th AGM Scheduled

September, 2023 at

2:00 P.M. through VC/

on Saturday, 30th

Mrugesh Ashwin Kumar Vyas Dated: 05th September. 2023 Company Secretary and Compliance Officer PAN - AIXPV8495M and Membership No: ACS: 4919 Place: Noida

Registered Office: Office No. 1109, Corporate Park Tower, A/1. Plot No.7 A/1, Sector 142, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, India

BSE: 523752 Equity

B/H. Sarveshwar Tower. OPP. B.M.W. Show Room, Thaltei, Ahmedabad, Gujarat-380054, India

CRESCENT FINSTOCK LIMITED

CIN: L51100GJ1997PLC032464 Registered Off Address: A/12, Sneh Kunj CHS, Residential Plot No.374, Koparli Road, Near Ambaji Mandir, GIDC, Vapi 396195, Gujarat. Contact no. 022 6188 7600 Email ld: crescentfinstock@yahoo.com/

complianceatcrescent@gmail.com

Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 29, 2023 at 3.00 p.m. through Video conferencing/Other Audio-Video Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of the AGM on Thursday, September 7, 2023 through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circular April 8, 2020 and April 13, 2020, Jan 13, 2021 and May 05, 2022 and December 28, 2022 (collectively referred to as the 'MCA Circular' and SEBI circular dated January 05, 2023. The Annual Report for the Financial year 2022-23 is available and can be downloaded from the website of the Company http://www.crescentfinstock.com/ resource/Shareholders-Corner/Annualreport.aspx and the website of Central Depository Services (India)

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting (evoting) system provided by CDSL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity capital of the Company as on Friday, September 22, 2023 The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, September 28, 2023 (5.00 p.m. IST). During this period, the Members may cast their vote

electronically. The remote e-voting period shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members who

In compliance to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 44 of the SEBI (Listing

shall be present at the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible through remote e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate

in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their votes again. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023, both days inclusive for the purpose of the Annual

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the cut-off date may obtain the login ID and password by sending the request to RTA at mt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if he/she is already is registered with CDSL, then he/she can use his/her User ID and password for casting the votes.

If you have not registered your email address with the Company/Depository, you may follow the below instructions to obtain login details for e-voting:

- Physical Holding: Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, at mt.helpdesk@linkintime.co.in or to the Company at complianceatcrescent@gmail.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
- ii) Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in

your demat account, as per the process advised by your DP. The details of AGM are available on the website of the Company i.e www.crescentfinstock.com, website

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of the any queries relating to voting by electronic means contact on the toll free number 1800-22-5533 or send a request at helpdesk, evoting@cdslindia.com. For any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013.

of CDSL i.e. www.evotingindia.com and website of stock exchange i.e. www.msei.in.

For Crescent Finstock Limited Mehnuddin Khan Company Secretary

NOTICE

Date: September 7, 2023

Pface: Mumbai

The ANARA Workshops Limited Registered office: V S Kudva Road, Maroli, Mangalore – 575005 CIN:U51909KA1943PLC001075 Phone No: (0824)-2211649, 2213402

Email ID: canarasprings@gmail.com / investor@canarasprings.com Website: www.canarasprings.in NOTICE TO THE MEMBERS The 80" Annual general meeting of the shareholders of The Canara Workshops

2013 and the Rules made thereunder and applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to transact the business set out in the Notice calling In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year 2022-23, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 04.09.2023 to the Members of the Company whose email addresses are

registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents

are also available on the Company's website at www.canarasprings.in, and also on

Limited will be held on Saturday 30" day of September 2023 at 10.00 A.M. at the

registered office of the company situated at V. S. Kudva Road, Maroli, Mangalore-

575005, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act,

the website of the CDSL at www.evotingindia.com. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to canarasprings@gmail.com investor@canarasprings.com

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("evoting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

also be made available at the AGM by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through the "Easi/Easiest" facility made available by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) The Company has engaged the services of Central Depository Services

Further, the facility for voting through electronic voting system will

(India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The manner of remote e-voting and voting by members in the AGM holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company: www.canarasprings.in and also on the website of the CDSL at The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. on Tuesday, 26" September, 2023 End of remote e-voting: 5:00 p.m. on Friday, 29th September, 2023 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and

time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry

of the aforesaid period. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, 29" September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through Easi/ Easiest.

Manner of registering / updating email addresses is as below:

The shareholders who have not registered their email address and in consequence the AGM notice could not be serviced may get their email address registered with the Company by sending an email to the company at canarasprings@gmail.com./investor@canarasprings.com. In case of any queries, shareholder may write to - BgSE Financials Limited, Stock Exchange Towers, No.51, 1st Cross, J.C.Road, Bangalore- 560027. Ph. No. 080 41329661, E-mail: cs rta@bfsl.co.in or avp rta@bfsl.co.in

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered Jupdated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and CDSL's website.

Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any guery pertaining to e-voting, members may go through the instructions given in the notice and in case of any gueries connected with evoting, the user manual is available at download section of www.evotingindia.com help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.ln case of any grievances with respect to e-voting, you may contact CDSL by e-mail at evoting@cdsl.co.in or write to the Company at canarasprings@gmail.com investor@canarasprings.comor to RTA at following address: BgSE Financials Limited,

Stock Exchange Towers, No.51, 1st Cross, J.C.Road, Bangalore-560027.

Place: Mangalore

Date: 04.09.2023

Ph. No. 080 41329661 E-mail:cs rta@bfsl.co.in or avp rta@bfsl.co.in

For THE CANARA WORKSHOPS LIMITED

PREMNATH SRINIVAS KUDVA DIN: 00126024







New Delhi



Chairman & Managing Director

BY ORDER OF THE BOARD

'फार्म नं. आईएनसी-25ए' पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय,

(उत्तरी क्षेत्र) के समझ कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम 2014 के नियम 41 के अंतर्गत

के मामले में मैसर्स आविदेव इन्वेस्टमेट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 212, दूसरा फ्लोर, अंसल भवन, 16 के.जी. मार्ग नई दिल्ली-110001 में है, के मामले मे

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी शनिवार, 26 अगस्त, 2024 को सुबह : 10:00 बजे आयोजित अपनी अतिविशिष्ट आम बैठक में पारिर विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेर कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम बनाने हेतु ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों वं साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 व अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एव शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप र जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयात अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली—110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय मे

आदिदेव इन्वेस्टमेट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड CIN: U65553DL1992PLC047974 पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 212, दूसरा फ्लोर, अंसल भवन, 16 के.जी. मार्ग नई दिल्ली-110001

ईमेल : aadidevinvestment@gmail.com कृत्ते की ओर र

आविवेव इन्वेस्टमेट एण्ड फोइनेंस लिमिटेर नीरज गुप्त

पूर्णकालिक निदेशव दिनांक : 08.09.2023 ढीआईएन : 05342761

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, इसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003, के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 घारा 13 की उप घारा (4)

और कम्पनी (निगमन) नियम-2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के लण्ड (क) के मामले में ।

मै. आइडियल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड CIN: U70100DL2009PTC192258 जिसका पंजीकृत कार्यालय : हाउस नं.-1912A गोविंद पूरी एक्सटेंसन, गली नं.-19, नई दिल्ली- 110019 में है, के मामले में ।

.(याचिकाकर्ता

मै, आइडियल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आम जनता को यह सचित किया जाता है कि यह कम्पनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिये शनिवार दिनांक 02 सितम्बर , 2023 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, एमसीए , बी-2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पॅनी को उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक की ओर से और उसके लिये

स्थान : नई दिल्ली

मै. आइडियल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड

रामसंत यादव निदेशक दिनांक: 08.09.2023 DIN: 06809419

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26"

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में) केंन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी

(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में पासिधिया इन्क्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CIN: U70101DL2011PLC216537)

एक लिमिटेड कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय एम–18, दीवान हाउस अजय एन्वलेव नई दिल्ली–110018 में स्थित है के मामले में

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी थानांतरित करने के लिए तारीख 15 जून 2023 को नंकल्प के संदर्भ में कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" मे स्थानांतरण करने उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, रलरी हेन्न को इस सचना के प्रकाशन की तारीख ह 14 दिनों के भीतर बी–2 बिंग, द्वितीय तल, पंडित नई दिल्ली—110003 के पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित

पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा एम-18, दीवान हाउस अजय एन्क्लेव नई दिल्ली-110018 कृत्ते पासिथिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

तिथि : 08.09.2023 निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 09824710

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में} केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

सीएमआर टैक सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U72900DL2019PTC349983) जिसका पंजीकृत कार्यालयः डब्ल्यू – 5 / 16, वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली—110062

में हैं के मामले मेंआवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" ले "हरियाणा राज्य" मे

स्थानांतरित करने के लिए 01 सितंबर 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख रे चीदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते डब्ल्य-5 / 16. वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म,

नई दिल्ली-110062 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 07 सितंबर, 2023

सीएमआर टैक सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 07.09.2023

स्थान: नई दिल्ली

राघव अग्रवाल (निदेशक)

रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-328 बेसमेंट फ्लोर डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली-110024 सीआईएनः L67120DL1981PLC011741, ई-मेलः ritaholdingsltd@gmail.com वेबसाइटः www.ritafinance.in, टेलीफोनः 011-46772202

वार्षिक आम बैठक की सुचना

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय निष्पादित करने के लिए रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड ('कंपनी') की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) (01/2023-2024/एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को 01:30 बजे अपराह्न 'मेट्रो ग्रिल' 415, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर मॉल, सेक्टर-10, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 पर आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना केवल ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिन्होंने डिपॉजिटरी/आरटीए/कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है और जिनके नाम 01 सितंबर, 2023 तक सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इस कोविड 19 महामारी की स्थिति में आवश्यक सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के बाद एजीएम आयोजित की जाएगी

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट डालने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। कंपनी ने शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

- 1. कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।
- ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी।
- 3. ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी।
- कट-ऑफ तिथिः 23 सितंबर, 2023। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों वे
- रजिस्टर में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ आम बैठक में वोटिंग का भी हकदार जिन व्यक्तियों ने शेयर हासिल कर लिए हैं और नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट-ऑफ तारीख से पहले कंपनी के सदस्य बन
- गए हैं, वे नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए लॉगिन आईडी
- कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ई-वोटिंग या मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से आम बैठक में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 10. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़े किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual का उल्लेख कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं:-
- (क) श्री परवीन शर्मा, डी-153ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- क नई दिल्ली-110020: ईमेल parveen@skylinerta.com, फोनः 011-30857575।
- (ख) सुश्री शुभम जोशी, (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी), रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड, 'मेट्रो ग्रिल' 415, चौथी मंजिल. सिटी सेंटर मॉल, सेक्टर-10, रोहिणी, नई दिल्ली-110085; **ईमेल**: ritaholdingsltd@gmail.com, फोन: 011-68888824
- 11. कंपनी एजीएम का आयोजन भौतिक रूप से कर रही है, लेकिन उपरोक्त प्रावधानों और परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कंपनी के सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं।
- 12. एजीएम का नोटिस http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन और कंपनी की वेबसाइट ritaholdingsltd@gmail.com पर भी उपलब्ध होगा।
- 13. ईमेल पते को पंजीकत/अद्यतन करने का तरीकाः
- (क) वे शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप से इक्विटी शेयर हैं, जिन्होंने कंपनी/आरटीए के साथ अपना ईमेल पता, पैन और बैंकिंग विवरण पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त जानकारी को हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति जिसमें शेयरधारक का नाम और पता, बैंक विवरण का प्रमाण और पैन / किसी अन्य पहचान और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति शामिल हो, कंपनी को ritaholdingsltd@gmail.com पर लिखकर अपडेट करें। । (ख) वे शेयरधारक जिनके पास डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर हैं और उन्होंने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल
- पता और बैंकिंग विवरण पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें। 14. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को एजीएम के नोटिस में बताए अनुसार व्यवसार
- पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें रविवार 24 सितंबर, 2023 से शनिवार 30 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड के लिए

दिनांक: 07/09/2023 (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी) कार्यालय पताः डी-328 बेसमेंट फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 स्थानः नई दिल्ली

apis"

एपीस इंडिया लिमिटेड (CIN: L51900DL1983PLC164048)

पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ईमेल: mail@apisindia.com | वेबसाइट: www.apisindia.com फोन: 011-4320 6650, | फैक्स: 011-2571 3631

41र्ग वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि एपीस इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41व वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 30

सितम्बर, २०२३ को दोपहर ०१:३० बजे अलमोंडज़ होटल, ४/३, ब्लॉक-४, मेट्रो पिलर नंबर- १७१ के पास, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली भारत- ११०००८, दिनांक १४ अगस्त, २०२३ के ४१% एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों की वस्तुओं के लेन-देन

४१ 🏿 एजीएम की सचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ३१ मार्च, २०२३ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (समेकित और स्टैंडअलोन) और उन पर लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं, उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। इसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकत पते पर अनुमितप्राप्त मोड में भेज दी गई हैं। एजीएम के नोटिस का प्रेषण ०६ सितंबर, २०२३ को पूरा कर

सदस्यों को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि उक्त गोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.apisindia.com/ pdf/Annual-Report-2023.pdf पर उपलब्ध है और वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम २० और २१ के साथ पठित धारा १०८ जैसा कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम २०१५ द्वारा संशोधित किया गया है, सेबी का विनियमन ४४ (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ और सचिवीय मानक-२ के खंड ७.२.१, के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वार्षिक आम बैठक में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। एजीएम (*रिमोट ई-वोटिंग*) के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा

इसके द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

एजीएम के 41ª नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा सकता है:

- 2. रिमोट ई-वोटिंग बधवार, २७ सितंबर, २०२३ को सबह ९:०० बजे (IST)शरु होगी और शक्रवार, २९ सितंबर, २०२३ को शाम ५:०० बजे (IST) समाप्त होगी।। ई-वोटिंग की अनुमति २९ सितंबर, २०२३ को शाम ०५:०० बजे (IST) के बाद नहीं दी जाएगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कट-ऑफ तिथि , शुक्रवार, २२ सितंबर, २०२३ तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, एजीएम में मतदान के साथ-साथ रिमोंट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सुचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, २०२३ तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लोंग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट (www.apisindia.com) और सीडीएसएल वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है। हालांकि यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- 5. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के
- बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से अपना वॉट नहीं डाला है. वे बैलेट के माध्यम से एजीएम के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान या रिमोट ई-वोटिंग की सविधा से मतदान का

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीकों के लिए सदस्य 41^न एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट

- एजीएम की सुचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.apisindia.com/pdf/Annual-Report-2023.pdf पर भी उपलब्ध हैं और एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वे इसे उपरोक्त में से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी से इसकी प्रति के लिए अनुरोध कर सकते हैं। 10. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकत नहीं किए हैं. उनसे अन्सेध है कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-223
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए और रिमोट ई-वोटिंग के लिए लोंगिन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी पंजीकृत करें । अपने ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे इसे अपने डिपॉनिटरी पार्टिसिपेंट(''डीपी') को और जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं उन सदस्यों के लिए रजिस्ट्रार को अपडेट करें। इसके अलावा, सुचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड
- में प्रतिभृतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिंटरी और डिपॉजिंटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करें। श्री आनंद कुमार सिंह (सदस्यता संख्या F10812), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- १२. संकल्प, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें ४१९ एजीएम की तारीख यानी शनिवार, ३० सितंबर, २०२३ को पारित माना
 - 3. एजीएम में किए गए मतदान के परिणामों के साथ ई-वोटिंग के परिणाम स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ एजीएम में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे। स्कूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनीं की वेबसाइट www.apisindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर वार्षिक आम बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे और परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं सूचित किया जाएगा। ४. किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए 'अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और सहायता अनुभाग के तहत
- www.evotingindia..com पर उपलब्ध 'ई-वोटिंग मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक र्डमेल लिख सकते हैं। 15. सदस्य ई-वोटिंग के संबंध में अपने प्रश्नों/शिकायतों को श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
- १६वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001, को ईमेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संबोधित कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-200-5533 पर कॉल करें।
- 16. सदस्य श्री विकास अग्रवाल, कंपनी सचिव को <u>vikas.cs@apisindia.com</u> पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं। उपरोक्त सचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और हितो के लिए जारी की जा रही है। कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ९१ और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम ४२ सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण

आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक ४१% वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए समापन अवधि अर्थात **शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023** तक (दोनों दिन सम्मिलित) के दौरान बंद रहेगी। एपीआईएस इंडिया लिमिटेड के लिए

अमित आनंद प्रबंध संचालक DIN: 00951321

नोट्स : 41 वीं एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के उपस्थित होने के बजाय और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत भरा हुआ होना चाहिए और एजीएम के शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले हस्ताक्षरित

होना चाहिए। प्रॉक्सी धारक को बैठक में भाग लेने के समय अपनी पहचान साबित करनी होगी। हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड

सीआईएनः L80221DL2010PLC207436 रजिकरू ए-95थ, दूसरी मंजिल, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली - 110052 ईमेल आईडीः compliance@hummingbirdeducation.com, वेबसाइटः www.hummingbirdeducation.com

13वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग जानकारी, बुक क्लोजर और रिकॉर्ड तिथि और लामांश की जानकारी

कंपनी के सदस्यों की 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को दोपहर 01.30 बजे 409, ए-09, जीडी-आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 पर आयोजित की जाएगी।

परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022-23 ('वार्षिक रिपोर्ट') के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस भेजने का काम 07 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.hummingbirdeducation.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर बीएसई लिमिटेड, और www.evoting.nsdl.com पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। ई-वोटिंगः कंपनी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 (कट-ऑफ डेट) तक भौतिक या

डीमैट रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सेवाओं के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से वोट का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है:

रिमोट ई-वोटिंगः सुविधा 27 सितंबर, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी और इसके बाद इसे अक्षम कर

जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा

रखे गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं, वे केवल दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिपॉजिटरीज को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकता है और

एजीएम के नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके एजीएम में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है। लामांश, रिकॉर्ड दिनांक और बुक क्लोजरः

कंपनी के निदेशक मंडल ने 05 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपये (यानी 30 फीसदी) के लाभांश की सिफारिश की, जो एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। सदस्यों द्वारा अनुमोदन पर लाभांश का भूगतान / प्रेषण रिकॉर्ड तिथि यानी 23 सितंबर, 2023 को कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि यानी 23 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में किया जाएगा, ताकि लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित की जा सके। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी लाभांश पात्रता का इलेक्ट्रॉनिक क्रेंडिट प्राप्त करने के लिए एजीएम नोटिस में दिए गए अनुदेशों के अनुसार अपने बैंक विवरण को अद्यतन करें।

एजीएम और लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित दर पर सदस्यों को दिए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करनी होती है। स्रोत पर कर की कटौती आवासीय स्थिति, सदस्यों की श्रेणी और आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई शतों को पूरा करने के अधीन होगी। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 23 सितंबर, 2023 को या उससे पहले compliance@hummingbirdeducation.com पर ई-मेल के नाध्यम से कर संबंधी दस्तावेज / घोषणाएं भेजें ताकि कंपनी लागू उचित विदहोल्डिंग टैक्स दर निर्धारित कर सके। हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड के लिए

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 07.09.2023

एजीएम में भाग ले सकते हैं।

RattanIndia

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय: ए नं. 49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037 फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindiapower.com, ई-मेल: ir_rpl@rattanindia.com

16वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा स्चित किया जाता है कि, रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 29, 2023 को दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों की एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। सामान्य परिपत्रों संख्या के अनुसरण में परिपत्रों संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के साथ अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पठित, सामान्य परिपत्र संख्या सहित 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 पठित ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के रूप में संदर्भित के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या के अनुपालन में बुधवार, दिनांक सितम्बर 06, 2023 के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु एजीएम बुलाई गई है। एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य 16वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके

कंपनी ने एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्टार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास कट-ऑफ तारीख यानि गुरूवार, दिनांक सितम्बर 07, 2023 को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 01, 2023 को भेजी जा रही है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण भी गुरूवार, दिनांक सितम्बर 07, 2023 को पूरा कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी का रजिस्टार और स्थानांतर एजंट, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की संविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्टोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 22, 2023 रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट www.rattanindiapower.com तथा https://evoting.kfintech.com (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक सितम्बर 26, 2023 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और गुरूवार, दिनांक सितम्बर 28, 2023 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी । दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा । जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं । एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में

ई-वोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री.संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है। एतद्वारा सुचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और

प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर ट्रान्सफर पुस्तक शनिवार, सितम्बर 23, 2023 से शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रेहेंगी। ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा

आनंद, उप-महाप्रबंधक, केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-345-4001. तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गांचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 07.09.2023

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

ललित नारायण मठपति कंपनी सचिव

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-15 (1) (क)/16 (3) देखें] ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

वाद सं. : ओ.ए./224/2022 ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क)

के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन ईएक्सएच. नंबर : 20041 भारतीय स्टेट बैंक

बनाम सतवीर सिंह

श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी मकान नंबर 76, प्रथम तल सेक्टर-91, सूर्य नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121013. फरीदाबाद, हरियाणा अन्य पता : एस/ओ एसएच भवानी सिंह मकान नंबर 276, सेक्टर-91, सूर्य नगर फेज-2, फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा

(1) सतवीर सिंह डी / डब्ल्यू / एस / ओ - श्री भगवान सिंह

जबिक, ओए / 224 / 2022 माननीय पीठ अधिकारी / रिजस्ट्रार के समक्ष 23-08-2023 को पेश

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 39,12,459 / – की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन / नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की

ii) मुल आवेदन के क्रमांक उक के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सजित किया गया है तथा / अथवा मुल

आवेदन के क्रमांक उक के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे; v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों

पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 19—10—2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 28-08-2023 को दिया गया। सम्मन नारी करने हेत् प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

ट्रास इंडिया हाउस इम्पेक्स लिमिटेड

(पूर्व का आईओ सिस्टम लिमिटेड)

सीआईएनः L74110UP1987PLC008764

पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय संख्या 1109, कॉपोर्रेट पार्क टॉवर, ए/1, प्लॉट नंबर 7ए/1, सेक्टर 142, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. 201301 भारत कार्पोरेट कार्यालयः बी-1101, टाइटेनियम स्क्वायर, बी / एच सर्वेश्वर टावर, सामने बी.एम.डब्ल्यू. शोरूम, थलतेज, अहमदाबाद 380054 गुजरात, भारत

रुतद्वारा सूचना दी जाती है कि ट्रांस इंडिया हाउस इम्पेक्स लिमिटेड (पूर्व का आईओ सिस्टम लिमिटेड) के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को दोपहर 2.00 बजे आयोजित की जाएगी

ईमेलः compliance@tihil.co.in दूरभाष: +91-79-46008108, वेबसाइट : www.tihil.co.in

रोयरधारकों को प्री-डिस्पैच की सूचना एजीएम की सूचना

वार्षिक लेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन वित्तीय विवरणों तथा उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करना। 2. श्री मयंक एस. जॉली (डीआईएनः 09366175) की कम्पनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव देंगे। 3. सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स मनोज आचार्य एण्ड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, अहमदाबाद की 5 वर्षों की अवधि के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति करना।

. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अनुसार कंपनी की उधार सीमा को बढ़ाना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत कंपनी की संपत्तियों पर प्रतिभृतियों का निर्माण . कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निवेश / ऋण और गारंटी की सीमा बढाने के लिए

. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा बढ़ाना (क) कंपनी के गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक (डीआईएनः 09366175) श्री मयंक एस. जॉली के पारिश्रमिक में वृद्धि को मंजूरी देना (ख) कंपनी के गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक (डीआईएनः 09494589) श्री इरफान कुरेशी

के पारिश्रमिक में वृद्धि को मंजुरी देना (ग) कंपनी के गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 06772154) श्री मितेश एस. राजपूत के पारिश्रमिक में वृद्धि को मंजुरी देना

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 (2) के तहत कंपनी द्वारा उस व्यक्ति को दिए गए ऋण, गारंटी या प्रतिभूति को सुधारना, जिसमें कंपनी के किसी भी निदेशक का हित हो।

 मौजूदा और साथ ही नए संबंधित पक्ष लेनदेन का अनुमोदन 10. मेसर्स गुप्ता गर्ग एंड एसोसिएट्स के इस्तीफे के कारण आकिस्मक रिक्ति को भरने के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक मैसर्स मनोज आचार्य एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अहमदाबाद को

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना।

कोविड–19 महामारी के व्यापक प्रकोप को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक मानदंड है और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 13 अप्रैल, 2020 के बाद परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 , और परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2020 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और समय–समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र, ईजीएम/ एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उदघाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है और सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी ईजीएम/एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 35वीं एजीएम के लिए परिकल्पित स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यालय संख्या

'एमसीए' द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों को उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और वहां भाग लेने और ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार हैं। इसलिए, एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस नोटिस

109, कॉपोर्रेट पार्क टावर, ए/1, प्लॉट नंबर 7ए /1, सेक्टर 142, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.

कंपनी ने मास सर्विसेज लिमिटेड. रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंटों द्वारा प्रदान की गई वीसी सुविधा के माध्यम से सदस्यों को 35वीं एजीएम में भाग लेने में सक्षम बनाया है। सदस्यों की भागीदारी के लिए निर्देश बाद के पैराग्राफों में दिए गए हैं। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की अनमति पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में

उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, 30 सितंबर, 2023 को एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीकृत फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए (क) अपने बैंक खाते का विवरण / बैंक खाते में परिवर्तन, यदि कोई हो, और (ख) उनके

पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, का हवाला देते हुए, पिन कोड नंबर के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर टांसफर एजेंट, मास सर्विसेज लिमिटेंड, ('आरटीए'), टी–34, दसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली110 020 दूरभाषः 011-26387281/82/83 फैक्स: 011–26387384 को तुरंत सूचित करें। अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के इच्छुक कॉपोर्रेट सदस्यों से अनुरोध किया

जाता है कि वे बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति की स्कैन की हुई प्रति मीटिंग से कम से कम 48 घंटे पहले भेजें जो प्रतिनिधियों को एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करती है ताकि उक्त संकल्प hetidshah@gmail.com और एक प्रति कम्पनी को compliance@tihil.co.in पर संवीक्षक को ईमेल किया जा सके। वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013

('अधिनियम') की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। एमसीए परिपत्रों के अनुसार, सदस्य यह भी ध्यान दें कि 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022—23 कंपनी की वेबसाइट www.tihil.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.comij और एनएसडीएल की वेबसाइट

https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में किसी भी

प्रश्न के मामले में, सदस्य ईमेल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए compliance@tihil.co.in पर

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने सदस्यों को 35वीं वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के

लिए पात्रता दर्ज करने की कट ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2023 निर्धारित की है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 (सुबह 09:00) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। विवरण निम्नानुसार हैं:

- 1	प्रतीक	प्रतिभूति का प्रकार	बही बंदी	उद्देश्य
-1		इक्विटी	रविवार, 24 सितम्बर, 2023 से	35वीं एजीएम शनिवार, 30
-1	बीएसईः		शनिवार, 30 सितंबर 2023	सितंबर, 2023 को दोपहर
- 1	523752		कटऑफ तिथिः 23 सितंबर,2023	2:00 बजे, वीसी/ओएवीएम के
- 1			i l	माध्यम से निर्धारित की गयी
- 1				हैं।

हमने 05 सितंबर, 2023 के दिन बीएसई पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट लिंक के साथ नोटिस अपलोड किया है। इसके अलावा, हमने 07 सितंबर, 2023 के दिन जनसत्ता और फाइनेंशियल एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्री डिस्पैच सूचना नोटिस भी दिया है। इसके अलावा, हमने 07 सितंबर, 2023 के दिन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से एजीएम नोटिस भेज दिया है।

दिनांक: 05 सितंबर, 2023

उत्तर प्रदेश-201301, भारत

कार्यालय संख्या 1109, कॉपोरेंट पार्क टॉवर,

ए/1, प्लॉट संख्या 7ए /1, सेक्टर 142,

सामने बी.एम.डब्ल्यू. शो रूम, थलतेज,

स्थानः नोएडा

पंजीकृत कार्यालयः

टांस इंडिया हाउस इम्पेक्स लिमिटेड के लिए (पूर्व का आईओ सिस्टम लिमिटेड) मृगेश अश्विन कुमार व्यास कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

पैन – AIXPV8495M और सदस्यता संख्याः एसीएस : 4919 कॉर्पोरेट कार्यालय : बी-1101, टाइटेनियम स्क्वायर, बीध्एच. सर्वेश्वर टावर,

सामने बी.एम.डब्ल्यू. शो रूम, थलतेज,

अहमदाबाद, गुजरात-380054, भारत

www.readwhere.com

ढीआईएन: 0845084: